खबर संक्षेप

एयरफोर्स रोड के मसले पर रक्षा मंत्री सिंह से शर्मा

फरीदाबाद। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के एयरफोर्स रोड 100 मीटर मामले में शुक्रवार को



शर्मा ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। अपनी भेंट में विधायक शर्मा ने

रक्षा मंत्री को बताया कि पहले प्रतिबंधित क्षेत्र का दायरा 900 मीटर था जिसे घटाकर पहले 300 मीटर और अब 100 मीटर किया गया है लेकिन इस 100 मीटर इलाके में लोग परेशान हैं।

स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का २ बार होगा फिटनेस

गाजियाबाद। माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे फिट



टेस्ट से लिया जाएगा। इसके लिए वर्ष में दो बार फिटनेस

फिटनेस

टेस्ट लिया जाएगा। फिटनेस टेस्ट के लिए प्रधानाचार्यों व शारीरिक शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पहले चरण में तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस बीच शारीरिक विभाग के सभी शिक्षक मौजूद रहें।



ज्वेलर्स सहित शातिर चोर गिरफ्तार. नकदी बरामद

गाजियाबाद। थाना लिंक रोड पुलिस ने बंद घरों में चोरी करने वाले दो शातिर चोरों और चोरी का सामान खरीदने वाले एक ज्वेलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से लाखों का सामान बरामद किया है। सीओ साहिबाबाद आलोक दुबे ने बताया कि थाना लिंक रोड पुलिस ने थाना साहिबाबाद क्षेत्र के शहीद नगर से राशिद, शाहिद और ज्वेलर्स नरेश कुमार को गिरफ्तार

सामान्य एससी बीसीए बीसीबी ईडब्ल्यू कुल

टी जाएगी और ठ्यके चयन पर विचार किया जाएगा।

ਕਿਕ੍ਰਾ

कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)

कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)

अर्जन प्रति शेयर (रु. 10 प्रत्येक के)

(निरंतर और अनिरंतर प्रचालनों हेत्)

[अवधि हेंतु लाभ/(हानि) निहित (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]

रिजर्व्स (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) पूर्ववर्ती वर्ष की अंकेक्षित बैलेंस शीट में दशीये अनुसार

1. प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)
2. अवधि हेत शद्ध लाभ/(हानि)

अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण मदों से पूर्व)

(असाधारण मदों के बाद)

डिब्बटी शेयर कैपिटल

अवधि हेतु कुल व्यापक आय

संवाद विज्ञा. सं.-1159/13/28/2021/1790/88/7 दि. 12.02.21

दस्तावेजों की संवीक्षा के उपरांत पात्र होंगे।

स्थान : पंचकला दिनांक : 11.02.2021

संस्कृत 325 119 59 31

सीएम मनोहर लाल ने बैठक में 11 समस्याओं का निपटारा किया, और कहा कि ये बजट

शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान सहित पांच विषयों पर होगा फोकस

हरिभूमि न्यूज 🕪 गुरुग्राम

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा का बजट लोकहित का बजट होगा जिसमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। बजट में मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगार, स्वावलंबन तथा स्वाभिमान सहित पांच विषयों पर फोकस होगा।

मुख्यमंत्री जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से रूबरू हो रहे थे। शुक्रवार की बैठक में कुल 12 समस्याएं रखी गई थी जिनमें से 11 का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार सरकार ने यह प्रथा बनाई थी कि बजट बनाते समय सभी हित धारकों, विधायकों व सांसदो से परामर्श किया जाएगा। इस दौरान बहुत से सुझावों को बजट में शामिल भी किया गया था। इस बार कोरोना के कारण हितधारकों से फिजिकली मीटिंग नहीं हो पाई लेकिन सभी संबंधित को पत्र लिखा गया है कि वे 20 फरवरी तक अपने सुझाव हमें लिखकर भेजे। उनमें से शामिल होने लायक सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट लोकहित का होगा जिसमें इस बात का विशेष तौर पर

हरिभूमि न्यूज 🕪 फरीदाबाद

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद

शर्मा ने शुक्रवार को बल्लभगढ़

विधानसभा के सेक्टर-3 में बनाए

जा रहे मॉडल संस्कृति स्कूल की

निर्माणाधीन इमारत का अचानक

इस मौके पर उन्होंने कार्य कर

रहे ठेकेदारों से कार्य को बेहतर ढंग

से करने की बात कही, इसके

अलावा उन्होंने अधिकारियों को भी

स्कल की इमारत को जल्द से जल्द

तैयार करने के दिशा निर्देश दिए है।

हरियाणा कमेचारी चयन आयोग बेज नं. 67-70, सेक्टर-2, पंचकूला-134151 (www.hssc.gov.in)

शद्धिपत्र सचना

को वेबसाइट अर्थात <u>www.hssc.gov.in</u> पर भी उपलब्ध है, के संदर्भ में, जिसके द्वारा कौशल विभाग और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के विभिन्न पदो

हेतु यूआरएल पता : http://adv12021.hryssc.in/StaticPages/HomePage.aspx के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र आमंत्रित किये गये थे

<u>पद (शेष हरियाणा)</u>

श्रेणी सं. 1 के पदों का श्रेणीवार विवरण इंडब्ल्यू कुल इंएसएम (5%) हॉरिजेंटल 3% पद इंएसपी हेतु

नं. 4/105-2012 पीजीटी-I(2) दिनांक 11.02.2021 के माध्यम से दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, पदों का ब्रैकअप निम्नानुसार पढ़ा जाए :-

16 6

534

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग विज्ञा. सं. 1/2021 दिनांक 10.02.2021 जोकि विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया गया था और एचएसएसस

्र उम्मीदवारों की जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि विज्ञा. सं. 1/2021 में कुछ नये बिन्दु शामिल किये गये हैं और विभाग द्वारा मैमो

निरीक्षण किया।

7 करोड़ की लागत से 4 एकड़ में बन रही इमारत

की इमारत का किया निरीक्षण

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मुलचंद

शर्मा ने आज चंडीगढ से आने के

बाद बल्लभगढ़ विधानसभा का

दौरा किया। सेक्टर 3 में बनाई जा

रही सीनियर सेकेंडरी मॉडल

संस्कृति स्कुल की इमारत का भी

4% (पीएचसो हॉरिजेंटल) हेतु आरक्षित

(बी) अस्थि विकलांग

(सी) बधिर एवं मक

(डी) मानसिक बौमारो

(ई) मल्टीपल अक्षमता

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग

पंचकुला

67,80,316

67,80,316

54,76,566

54,76,566

50,00,000

10.95

10.95

21,28,50,16

निरीक्षण किया।

आरक्षित (हॉरिजेंटल)

10 4 2

सामान्य एससी बीसी(ए) बीसी(बी) सामान्य एससी बीसी(ए) बीसी(बी)

2

जो उम्मीटवार विज्ञापन सं. 4/2015 श्रेणी सं. 16 के तहत पहले ही आवेटन कर चके हैं और विज्ञा. सं. 1/2021 में वर्णित योग्यताओं के अनसार पात्र हैं वे भी आवेट-

कर सकते हैं। आयोग ने शल्क और आय में उन उम्मीदवारों को एक बार छट देने का निर्णय लिया है। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों को पुनः आवेदन शुल्क के जमा के साक्ष्य सिहत पुनः आवेदन करना होगा। उनसे ई-चालान सिहत नये आवेदन प्रपन्न को अपलोड करने की अपेक्षा को जाती है और परीक्षा / सत्यापन के समय उन्हें मूल ई-चालान प्रस्तुत करना होगा। जो उम्मीदवार पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते और पुनः आवेदन नहीं करना चाहते आवेदन शुल्क के रिफंड हेतु दावा कर सकते हैं।

आयोग के दिनांक 29.09.2015 के प्रस्ताव के अनुसार यदि कई उम्मीदवारों के अन्तिम मैरिट लिस्ट में एक समान अंक आते हैं तो बड़ी आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकत

अावोग के दिनांक 23.11.2018 के प्रस्ताव के अनुसार उम्मीदवारों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर पदों की कुल सं. से तीन गुणा के बराबर उम्मीदवारें

को दस्तवेजों की संबीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। सामाजिक आर्थिक मानइंड के अंक दस्तावेजों को संबीक्षा के उपरांत जोड़े जाएंगे और केवल उन्हीं उम्मीदवारों के जोड़े जाएंगे जी

पर्ल अपार्टमेंट्स लिमिटेड

(CIN NO: L70101DL1979PLC009901)

पंजी. कार्यालय : 903, रोहित हाउस, 3, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली−110001 Tel No.: +91-11-23725826/27/28, Website: www.pearlapartments.co.in, Email Id: pearl.secretarial@pearlmail.com

समाप्त तिमाही हेत्

8,77,403

8,77,403

5,90,388

5.90,388

50,00,000

1.18

(अअंकेक्षित) (अअंकेक्षित) (अअंकेक्षित) (अअंकेक्षित) (अअंकेक्षित) 21,64,037 21,13,654 21,08,856 61,71,441 1,26,69,346

(4.51.460)

(4,51,460)

(3,34,913)

(3,34,913)

(0.67)

(0.67)

22,04,150 67,09,963

22,04,150 67,09,963

16,31,070 51,74,724

51,74,724

16,31,070

50,00,000 50,00,000 50,00,000

3.26

3.26

31 दिसम्बर 2020 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

4,55,620

3,37,160

3.37.160

50,00,000

मुख्यमंत्री जिला लोकसंपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से हुए रूबरू



जो नौकरी प्राप्त करने के पात्र होंगे उन्हें अवसर देंगे

हरिभूमि न्यूज 🕪 फरीदाबाद

हरियाणा प्रदेश में जारी चुनावी

प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को

हरियाणा कर्मचारी महासंघ के

त्रिवार्षिक चुनाव राज्य सचिव

बजरंग लाल जांगड़ा बतौर चुनाव

अधिकारी की अध्यक्षता में अलग-

अलग डिपार्टमेंटों से आए कर्मचारी

हरिभूमि न्यूज 🕪 फरीदाबाद

कर्मचारियों की समस्याओं के

निराकरण को लेकर शुक्रवार को

नगर निगम कार्यालय में नगर

निगम की सफाई कर्मचारी यूनियन

के प्रतिनिधि मंडल और वित्त

नियंत्रक के बीच वाती हुई। इस

वार्ता में वित्त नियंत्रक ने

कर्मचारियों की ज्यादातर मांगों पर

सहमति जता दी। अब इन मांगों का

प्रोपोजल बनाकर निगमायुक्त को

भेजा जाएगा। जिसके बाद इन

मांगों को पूर्ण किया जाएगा।

विभिन्न मांगों को लेकर वित्त

नियंत्रक विजय धमीजा, एओ

विजय कुमार, सुपरीडेंट दीपा

मैडम, सुपरीडेंट विनोद गुलाटी

तथा नगर निगम की सफाई

कर्मचारी यनियन के प्रधान

अब ज्यादातर मांगों का हुआ समाधान

वित्त नियंत्रक और कर्मचारी

पतिनिधिमंडल के बीच वार्ता

कष्ट निवारण समिति बैठक में सन 2006 में हरिराणा राज्य औद्योतिक संरचना विकास ਗਿਗ**म (एचएसआईआई**डीसी) द्वारा अधिग्रहित की गई गुरुगाम जिला के 5 गांवों - गाडौली खुर्द, हरसरू, मोहम्मदपुर, खांडसा तथा नरसिंहपुर के विस्थापितों का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया

था जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में आए न्यायालय के आदेशों के अनुसार पॉलिसी बनाकर लाभ पात्रों को प्लॉट अलॉट किए जाएंगे । जो नौकरी प्राप्त करने के पात्र होंगे उन्हें रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। यह निर्णय एनएसआईआईडीसी के सदन में होगा। इसी प्रकार, सारे होम्स नामक सोसायटी में बिल्डर द्वारा छोड़ी गई किमयों के बारे में शिकायत आज पुनः मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई थी जिसमें उन्होंने कहा कि सोसायटी 48 एकड में है और इसमें कई टॉवर हैं। सभी टॉवरों में रहने वाले लोगों की समस्याएं अलग-अलग हैं। किसी टॉवर में डवलेपमेंट चार्जिज को लेकर समस्या है तो किसी में मेन्टेनेंस या बिजली को लेकर।

हॉटमिक्स प्लॉट संबंधी शिकायत पर

३९ लाख रुपए का जुर्माना लगाया बैठक में केएमपी एक्सप्रेस वे पर अवैध रूप से चल रहे हॉटमिक्स प्लॉट संबंधी शिकायत पर सनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उसके संचालक के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करके कार्यवाही की गई है तथा उस पर पर्यावरण हर्जाने के तौर पर 39 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्यमंत्री के प्रधान सर्विव वी उमाशंकर, पिंट्लिक सेफटी, ग्रीवेंस तथा गुड गवर्नेंस एडवाइजर अनिल राव, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य, गुरूग्राम की मेयर मधु आजाद, पटौदी के विधायक सत्यप्रकाशं जरावता. सोहना के विधायक संजय सिंह, बादशाहपुर के विधायक एंव हरियाणा एवो इंडस्टीज के चेयरमैन राकेश ढौलताबाढ समेत अन्य रहे।

जयभगवान हरियाणा कर्मचारी महासंघ के चेयरमैन चुने गए

नेताओं की मौजदगी में जनस्वास्थ्य

विभाग सेक्टर-11 के प्रांगण में

कराए गए। हरियाणा कर्मचारी

महासंघ के निष्पक्ष चुनावी की

प्रक्रिया को सफल बनाने का जिम्मा

बिजली निगम फरीदाबाद के सर्कल

सचिव संतराम लाम्बा के मजबूत

कंधों पर रहा व मंच को संभालते

हुए चुनावी कार्रवाई को आगे

निगम कार्यालय में वित्त नियंत्रक

विजय धमीजा व कर्मचारी यनियन के

प्रधान बलवीर सिंह बालगुहेर के बीच

बलवीर सिंह बालगुहेर, सोमपाल

झिझोटिया, श्रीनंद ढकोलिया,

जितेन्द्र छाबडा, रगबीर चौटाला,

बालगृहेर, सुरजकीर, विजयपाल,

नैन सिंह व रविन्द्र टांक के बीच

सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई। जिसमें

कर्मचारौ प्रतिनिधिमंडल ने अपनी

मख्य मांगें रखी।

जगदीश

चावला,

कृषि भूमि अलग से की जाएंगी चिंन्हित

सीएम मनोहरलाल ने कहा कि राज्य सरकार ऐसा नियम बनाने जा रही है जिसमें एक प्लॉट पर विकास शुल्क एक बार ही लगेगा। यदि किसी प्लॉट के मालिक को विकास शल्क भरने के लिए नगर निगम या नगरपालिका से नोटिस प्राप्त होता है तो वह पहले भरे गए विकास शुल्क की रसींद दिखा दें, उससे दोबारा शुल्क नही लिया जाएगा। एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक एकड़ से कम कृषि भूमि की रजिस्टी को लेकर पिछलें दिनों राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। अब ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि कृषि भूमि अलग से चिनहित होगी और उसकी रजिस्ट्री पर क्लेक्टर रेट भी कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित रेट ही लगेगा। इसी प्रकार सरकार द्वारा प्लॉट के विभाजन को लेकर पूरे प्रदेश में पॉलिसी तैयार की जा रही है जिसके अनुसार प्लॉट के विभाजन के लिए साइज तय की जाएगी। निर्धारित सीमा से नीचे के साईज के प्लॉट का विभाजन नहीं होगा। दंगाईयों द्वारा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी संपत्ति प्रदेश के सभी नागरिकों की होती है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की संपत्ति से नुकसान की भरपाई करवाने के बारे में नियम बनाने पर विचार किया जा रहा है।

उत्तराखंड आपदा का एनसीआर पर दिखा असर

पिछले दो दिनों में गंगनहर में पानी और सिल्ट की मात्रा में हुई बढ़ोतरी

चमोली में आई आपदा का असर अब एनसीआर पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद के मुरादनगर गंग नहर में अचानक से पानी का स्तर बढ़ गया है। यहीं नहीं पानी में रेत यानी सिल्ट की मात्रा बढ गई है। माना जा रहा है कि इस वजह से उत्तराखंड से एनसीआर आने वाली गंगाजल की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। प्रताप विहार गंगा जल परियोजना के अधिकारी का कहना है कि स्थिति अभी क्लियर नहीं है।



सप्लाई हो सकती है प्रभावित

गाजिराबाद की बात करें तो वैशाली वसंधरा, कौशांबी जैसे पॉश इलाकों मे गंगाजल की सप्लाई होती है। दिवाली के आसपास उत्तराखंड में गंग नहर की सफाई के ढौरान सप्लाई बंद हो जाती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर पानी में सिल्ट की मात्रा बढती है तो ढो से तीन ढिनों के लिए गंगाजल की सप्लाई बंद हो सकती है।

लापता व्यक्ति की तलाश



सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि यह व्यक्ति जिसका नामः मुन्ना बसुर, पुत्रः प्रेम बसुर, पताः मकान नं. ई-132, कपिल विहार, पितमपुरा, दिल्ली, उम्रः 35 साल, कदः 5 फीट 6 इंच, रंगः गेहुँआ, चेहराः गोल, पहनावाः शर्ट, पैंट व जुते पहने हुए, जो दिनांक 19.11.2020 को थाना क्षेत्र सुभाष पैलेस, दिल्ली से लापता हो गया है।

इस संदर्भ में DD No. 30A, दिनांक 26.11.2020, थाना सुभाष पैलेस, दिल्ली में

पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी अबतक इस लापता व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सुराग नहीं मिल पाया है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित पते पर सूचित करने की कृपा करें।

: cic@cbi.gov.in थाना सभाष पैलेस, दिल्ली वेबसाइट : http://cbi.nic.in फोनः 011-27356336, 27356314 : 011-24368639 दूरभाष : 011-24368638, 24368641 DP/653/NW/2021

गुमशुदा/अपहृत की तलाश



अंजली

ब्रह्मपूरी, रनहौला, दिल्ली जो दिनांक 27.10.2020 से थाना रनहौला, दिल्ली के अधिकार क्षेत्र से लापता/अपहरण कर लिया गया है। इस संदर्भ में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 37/21 धारा 363 भा.द.स. दिनांक 15.01.2021 थाना रनहौला, दिल्ली में दर्ज है। जिसका शारीरिक विवरण इस प्रकार है:-

उम्रः 16 वर्ष, कदः 5'3", रंगः साफ, चेहराः गोल, कपड़ेः सफेद व काले रंग का टॉप और काले रंग की जीन्स तथा पैरों में काले रंग की चप्पल पहने हुए है।

या सुराग मिले तो अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित पते पर सूचित करने की कृपा करें | ई-मेल आईडी-cic@cbi.gov.in वेबसाइट: http://cbi.nic.in थानाध्यक्ष फोन:

यदि किसी भी व्यक्ति को इस गुमशुदा/अपहृत लडकी के बारे में कोई जानकारी

फैक्स नं.: 011-24368639 DP/668/OD/2021

थाना रनहौला, दिल्ली बाहरी जिला, दिल्ली दुरमाष सं. 011-28363001, 28363002

011-24368638, 24368641

माई मनी सिक्योरिटीज लिमिटेड CIN: L67120DL1992PLC047890 पंजीकृत कार्यालय : 10 ए, अंडरहिल लेन, सिविल लाइस, दिल्ली-54

ई मेल आई डी : mymoneyviews@outlook.com, फोन नं. : 011-23924241, 23930655 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीने के लिए एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

	31 विसम्बर, 2020 का	31 11 31 131 111	01 54 11 101	1 4 1017	Treat Sitt Sitt	(रार्	शे लाख में)
क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2020 अलेखापरीक्षित	समाप्त तिमाही 30.09.2020 अलेखापरीक्षित	तिगाही 31.12.2019	महीने 31.12.2020	महीने	31,03,2020
1	प्रचालनो से कुल आय (शुद्ध)	30.48	8.85	8.25	58.98	15.42	(27.51)
2	कर के बाद साधारण गतिविधियों से शुद्र लाम / (हानि)	11.29	(4.79)	(13.13)	6.88	(62.22)	(147.16
3	कर के बाद अवधि (असाधारण मदों के बाद हेतु शुद्ध लाम/ (हानि)	11.29	(4.79)	(13.13)	6.88	(62.22)	(147.16
4	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु निहित लाम/हानि (कर के बाद)]	11.29	(4.79)	(13.13)	6.88	(62.22)	(147.16
5	इविवटी शेयर कॅपिटल	1000.03	1000.03	1000.03	1000.03	1000.03	1000.03
	अर्जन प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) (रु 10 /— प्रत्येक के) बेसिक : हायल्युटेड :	0.113 0.113	(0.048) (0.048)	(0.131) (0.131)			(1.471 (1.471
7	अर्जन प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) (रु 10/- प्रत्येक के)	0.113	(0.048)	(0.131)	0.060	(0.622)	(1.471

स्थान : दिल्ली दिनांक : 12.02.2021

महर्षि दयानंद के जीवन व आदर्शों पर की चर्चा गाजियाबाद। मेवाड़ ग्रुप आफ

इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉ अशोक कुमार गदिया ने शुक्रवार को कहा कि महर्षि दयानंद के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। इन्हें अमल में लाना होगा। अमल में लाने पर ही विश्व में व्याप्त तमाम विवादों और पाखंडों से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लोग एक बार जरूर पढ़ें। ऐसे विषयों पर छात्रों से चर्चा की

बढ़ाया। जिसमे मौजूद सभी

कर्मचारी नेताओं की कोशिशें रही

कि यह चनाव शान्तिपर्ण और किसी

टकराव की परिस्थिति के बिना एक

सौहार्दपूर्ण माहौल में सम्पन्न हो।

निवर्तमान जिले की कार्यकारिणी

को पहले भंग कराया तत्पश्चात

वर्तमान की नव कार्यकरिणी के लिए

चुनाव शुरू कराया गया।

हथियारों लेकर लूट की योजना बना रहे दो धराए

फरीदाबाद। हथियारों के बल पर लूट की योजना बना रहे दो शातिर बदमाशों को क्राइम ब्रांच सेक्टर-65 की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से देशी कट्टा, एक लोहे की रॉड, एक टार्च बरामद की है।

0.113 (0.048) (0.131) 0.069

। कत्ते व निदेशक मंडल की ओर से

ईंधन व खाद्य तेल के बढे दामों को लेकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा जापन

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव बलजीत कौशिक के नेतृत्व में शुक्रवार को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सैलजा और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल के दिशा-निर्देश पर भाजपा सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी तीन काले कानूनों और पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों व कमरतोड़ मंहगाई के खिलाफ अपने कार्यालय से सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय तक सैंकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ पैदल मार्च करते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। जिला उपायुक्त की अनुपस्थिति मे यह ज्ञापन एसडीएम जितेंद्र कुमार ने लिया।

डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ रहे हैं।

हरिभूमि न्यूज 🕪 फरीदाबाद

फरीदाबाद के पर्व विधायक आनंद कौशिक व

कौशिक ने कहा कि देश में पिछले लगभग तीन महिनों से दिल्ली व अन्य कई स्थानों पर इन बिलों के विरोध में किसान धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री अपनी हठधर्मिता के चलते इन अन्नदाताओं की बात सुनने को तैयार नहीं हैं। धरने पर बैठे हुए बहुत से किसानों की मौत भी हो चूकी है, फिर भी सरकार पर कोई असर नहीं पड रहा है। इस अवसर पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव बलजीत कौशिक ने कहा कि इसके अलावा हम राष्ट्रपति महोदय का ध्यान देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहीं मंहगाई की ओर भी दिलाना चाहते हैं। पेट्रोल व

SAINIK FINANCE & INDUSTRIES LIMITED

Regd.off: 129 Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi-110035, Ph.: 011-28315036 Fax: 011-28315044 Corp.Off: 7th Floor, Office Tower, Ambience Mall, NH-8, Gurgaon (Haryana)-122001, Ph.0124-2719000, Fax: 0124-2719100 CIN: L26912DL1991PLC045449, Website: www.sainikfinance.com, Email: info@sainik.org, legal.secretarial@sainikmining.com Extract of Statement of Standalone Financial Results for the quarter ended on 31 December 2020

SI. No.	Particulars	3 months ended (Unaudited) 31.12.2020	3 months ended (Unaudited) 30.09.2020	Correspond- ing 3 months ended in the previous year (Unaudited) 31.12.2019	9 months ended (Unaudited) 31.12.2020	9 months ended (Unaudited) 31.12.2019	Year to date figures for current year ended (Audited) 31.03.2020
1	Total Income from operations	579.70	1,178.59	746.44	2,457.14	2,674.39	3,409.29
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extraordinary Items)	110.75	615.08	289.85	916.38	600.87	627.04
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary Items)	110.75	615.08	289.85	916.38	600.87	627.04
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary Items)	91.83	452.07	218.59	675.02	452.11	406.28
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	91.83	452.07	218.59	675.02	452.11	399.05
6	Equity Share Capital (face value of the share : Rs.10 each)	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as per previous financial year	2/	21		12	1920	3,329.80
8	Earning per share (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic: 2. Diluted:	0.84 0.84	4.16 4.16	2.01 2.01	6.20 6.20	4.16 4.16	3.73 3.73

Place: Gurugram (Haryana)

Date: 12 February, 2021

- The above is an extract of the detailed format of quartery Financial Result for the quarter ended 31st December 2020 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and also on the Company's website www.sainikfinance.com
- The detailed financial results and this extract were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 12th February 2021. The auditors have carried out Limited Review of the financial results, as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

By order of the Board For Sainik Finance & Industries Limited

> Rudra Sen Sindhu Director (DIN-00006999)

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 12 फरवरी 2021

0.67

टिप्पणी : सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन एवं घोषणा आवश्यकताएं) नियमनों, 2015 के नियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजेज के पास दायर

किये गये अअंकेक्षित तैमाहिक और समाप्त नौ माह के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार ऊपर दिया गया है। 31 दिसम्बर 2020

को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु अअंकेक्षित तैमाहिक और समाप्त नौ माह के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट्स

www.msei.in पर और कम्पनी की वेबसाइट www.pearlapartments.co.in पर उपलब्ध हैं।

कृष्ण कुमार सेठ (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) डीआईएन 00005765

कते पर्ल अपार्टमेंटस लि

10.35

10.35

समाप्त वर्ष 31.12.2020 30.09.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.03.2020 (अंकेक्षित) 1,47,34,47

ये दाम दिन अब प्रतिदिन बढ रहे हैं

Corrigendum-1

Place: Gurugran

Particulars

Total Income from operations

Net Profit for the period (Before Tax

Exceptional and/or Extraordinary items)

Net Profit for the period Before Tax (after

Exceptional and/or Extraordinary items)

Net Profit for the period After Tax (after

Exceptional and/or Extraordinary items)

period [Comprising Profit) for the period

Total Comprehensive Income for the

(after tax) and other Comprehensive

Reserves (excluding Revaluation

Reserves) as shown in the Audited

Balance Sheet as shown in the previous year

Earning Per Share (of Rs.10/- each)

(for continuing and discontinued

Income (after tax)]

Equity Share Capita

operations)

Date: 12.02.2021

Note

(a) Basic (in Rs.)

(b) Diluted (in Rs.)

No.: 221-S/4/2/W/BP/MTC/ML-IV(2020) Date: 12.02.2021 Name of Work: Round the Clock Transportation of Drivers Line Boxes of Diesel & Electric Drivers & Guards from Engine/Train/B.Van to Running room/Lobby/Station/ Yard and vice-versa at Meerut City station under Sr. Crew Controller, Meerut City Station for the period of two years from the date of execution of work (as per detailed

Published Date for submission of tender Date of Opening may and opening of tender (Corrigendum-1) be read as under 01.03.2021 08.03.2021

Other terms and conditions remain same Serving Customers with a Smile

ବ୍ର CSB Bank

CSB Bank, Dwarka Branch, Sector-17, Dwarka, Delhi-110078 **GOLD AUCTION NOTICE**

CSB Bank Limited, Dwarka branch had granted gold loan against pledge of gold ornaments to the below mentioned borrower/s. Notice has been issued to him/them demanding repayment of the amount with interest and charges thereon. Since they have failed to repay the balance outstanding in the respective account/s, we are constrained to recover the amount by sale of gold ornaments in public auction and if the auction does not fetch required amount, bank will proceed with the sale by private treaties/contract.

Bank respress its right to change/extend the date and venue of auction without Bank reserves its right to change/extend the date and venue of auction without

	Name of borrower	Gross Weight of Pledge items (in grams)	Overdue Gold Loan Account no.	Amount	Balance as on 10-02-2021
1	Aarti Mishra	274.39	0480-07284456- 000002	1050000	1093528.41
2	Aarti Orchiya	31.4	0480-07278116- 000001	123000	123161.5
3	Shruti	61.5	0480-04172333-	244000	251774.16

ddress. Participants should attend the auction along with copy of Pan Card, passpo ize photo, valid identity proof and address proof on the date of a **BRANCH MANAGER** Contact :- 82873 74979

SUPERIOR FINLEASE LIMITED CIN: L74899DL1994PLC061995 Regd. Off: NS-92, Khasra No-33/21, Ranaji Enclave, Najafgarh, Near Arjun Park Bus Stand New Delhi -110043

Email id: superiorfinlease@gmail.com; Website: www.superiorfinlease.com Extract of Statement of Un-audited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2020

45.24

45.24

45.24

45.24

300.10

₹ 3.31

1.51

155.63

36.65

36.65

36.65

36.65

1.22

The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Nine Months Ended Results filed with the Stock

Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

The full format of the Quarterly Results are available on the Stock Exchange Website (www.msei.in and

12/31/2020 9/30/2020 12/31/2019 12/31/2020 12/31/2019 3/31/2020

1.57

(1.25)

0.09

11.07

300.10

(11.27)

0.00

Un-audited

236.23

97.63

97.63

97 63

97.63

300.10

₹ 3.3′

3.25

Audited

102.33

22.09

22.09

16.31

18.91

300.10

(11.27)

0.54

0.54

68.87

28.21

25.39

19.80

23.32

300.10

(8.67)

0.66

0.66

FOR SUPERIOR FINLEASE LIMITED

(RAJNEESH KUMAR

DIN: 02463693

The auction will be conducted at the premises of CSB Bank Limited, Dwarka branch premises situated at A-2/227, Upper Ground Floor, Sector-17, Dwarka, Delhi-110078 or 21st Feb 2021. Interested parties may contact the Branch Manager in the above

MY MONEY SECURITIES LTD.

NEW DELHI | SATURDAY | FEBRUARY 13, 2021

CIN: L67120DL1992PLC047890

Regd Office: 10-A, UNDERHILL LANE, CIVIL LINES, DELHI-54
011-23924241, 29390655. EMAIL ID: mymoneyviews@outlook.com
Extract of the Standalone Unauditied Financial Results for the Regd Office Quarter and nine months ended 31st December, 2020

S.	Particulars	Quarter	Quarter	Quarter	Nine	Nine	Year
NO		Ended	Ended	Ended	Months	Months	Ended
					Ended	Ended	
		31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1_	Total Income from operations (net)	30.48	8.85	8.25	58.98	15.42	(27.51)
2	Net Profit/(Loss) from Ordinary						
	Activities after tax	11.29	(4.79)	(13.13)	6.88	(62.22)	(147.16)
3	Net Profit/(Loss) for the period						
	after tax (after Extraordinary						
	items)	11.29	(4.79)	(13.13)	6.88	(62.22)	(147.16)
4	Total comprehensive Income for						
	the period (comprising profit/						
	(loss) for the period after tax	11.29	(4.79)	(13.13)	6.88	(62.22)	(147.16)
	and other comprehensive income						
Ш	after tax						
5	Equity Share Capital	1000.03	1000.03	1000.03	1000.03	1000.03	1000.03
6	Earning per share						
	(before extraordinary items)						
	(of Rs. 10/- each)						
	Basic	0.113	(0.048)	(0.131)	0.069	(0.622)	(1.471)
Ш	Diluted	0.113	(0.048)	(0.131)	0.069	(0.622)	(1.471)
7	Earning per share						
	(after extraordinary items)						
	(of Rs. 10/- each)						
	Basic	0.113	(0.048)	(0.131)	0.069		(1.471)
	Diluted	0.113	(0.048)	(0.131)	0.069	(0.622)	(1.471)
N	ote: The above is an extract of the	e detailed f	ormat of Q	uarterly/An	nual Financ	ial Results	filed with
th	e Stock Exchanges under Regula	ation 33 of t	he SEBI (L	isting and (Other Disclo	sure Reau	irements)
	egulations, 2015. The full formal						
	tock Evenanda websites /www.						

Sanjai Seth Whole Time Directo Dated : 12/02/2021 DIN: 003505/

Particulars

Net Profit/(Loss) for the period before

Net Profit/(Loss) for the period after

period (Comprising Profit/(Loss) for

Comprehensive Income (after tax))

ne period (after tax) and Other

Reserves (excluding Revaluation

Reserve) as shown in the Audited

Earning per Share (face Value of Rs. 10/- each)(not annualised)

Balance Sheet of the previous year

Total Income from Operations

(before Tax, Exceptional and/or

tax (after Exceptional and/or

tax (after Exceptional and/or extraordinary Items#)
Total Comprehensive Income for the

extraordinary Items#)

extraordinary Items#)

Equity Share capital

1. Basic

2. Diluted

NOTE

For and on behalf of the Board of Directors

ASHNOOR TEXTILE MILLS LIMITE
Registered Office: Behrampur Road, Khandsa Village, Gurugram, Haryana: 122001, India, Tel: +91 (0124): 4809756
CIN: UL17226HR1984PLC033384 | E mail: atml_delhi@yahoo.com | Website: www.ashnoortex.com

320/2021

Statement of Standalone Financial Results for the 3rd Quarter and Nine Months Ended December 31, 2020

SI.	Particulars Particulars	Year End 31-12-2020 30-09-2020 31-12-2020 31-12-2019 31-03- (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Audited)	Standalone Previous			
No.						Year Ended
		31-12-2020	30-09-2020	31-12-2020	31-12-2019	31-03-2020
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations (Net)	4,188.47	1,663.32	7,469.01	10,376.49	13,723.19
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	153.60	173.80	414.45	474.01	404.21
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	153.60	173.80	414.45	474.01	407.34
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	119.65	130.35	315.28	392.22	323.44
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after					
	tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	119.65	130.35	315.28	392.22	323.44
6	Paid Up Equity Share Capital	1,273.95	1,273.95	1,273.95	1,248.95	1,273.95
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of					
	the previous year					2,337.90
8	Earnings Per Share (of Rs. 10)- each) (before and after extraordinary items)					
	1. Basic:	0.94	1.02	2.47	3.14	2.59
	2. Diluted:	0.94	1.02	2.47	3.14	2.59

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Bombay Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Bombay Stock Exchange i.e. www.bseindia.in and on web site of the Company i.e. www.ashnoortex.com By Order of the Board of Directors For Ashnoor Textile Mills Limited

> Sdi Suncel Gupta Managing Director DIN 00052084

JINDAL LEASEFIN LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC059252 Regd. Office: 110, Babar Road, New Delhi 110001

13.69

9.32

18.65

300.89

442.23

0.31

0.31

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of

the Quarterly/Annual financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com . The same is also available on the Company's website www.jlltd.co.in.

The above results duly reviewed by the Audit Committee, were approved by the Board of Directors in their meeting

3 Previous quarter/ year end figures have been rearranged and / or regrouped, wherever necessary, to make them comparable with those of the current quarter/ year end.

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31.12.2020

-2.36

-2.13

-4.23

9.92

AXIS BANK

Axis Bank Limited, Axis House, Tower-2, 2nd Floor, I-14, Sector 128, Noida Expressway, Jaypee Greens Wishtown, Noida (U.P. 201301, Controlling office: Axis House, Bombay Dyein Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai-400025

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s that the below described immovable property mortgaged/charged to the secured creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Secured Creditor will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" basis on 03-03-2021 on 12 Nool at Axis House, Tower-2, 2nd Floor, I-14, Sector-128, Noida Expressway, Jaypee Greens Wishtown Notida (U.P.)-201301 for recovery of Rs. 17,02,166/- due as on 22-08-2016 along with further interes as applicable, incidental expenses, costs, charges etc incurred up to the date of actual paymer and/or realization due to the secured creditor from Mr. Devendra Pal Singh.

The reserve price will be Rs.18,54,000/- (Rupees Eighteen lakh fifty four thousand only) and the earnest money deposit will be Rs.1,85,400/-. Last Date, Time And Venue For Submission Of Bids With Sealed Offer/Tender With EMD on 02-03-2021 at the above mentioned address.

Account Number	Location / Details of the Immovable Property/ Secured Assets possessed and put for sale	Encumbrances, if any known to the Bank.
Home Loan Loan No - PHR0126003 35239	A Residential Flat Having Super area 1244.59 Sq.Ft (i.e 115.56 Sq.Mtr) and built up area 995.50 Sq. Ft. (i.e 92.45 Sq. Mtrs) bearing Flat No CO20203 on 2nd Floor (Without roof Rights) in Building C-02 situated in Group Housing Project namely "Ebony Greens" being part of Residential Township Crescent Par C situated at Village Shahpur Bamheta. Ghaziabad Uttar Pradesh	

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in the secured creditor bsite i.e. Https://www.axisbank.com/auction-notices/

Date: 13.02.2021 **Authorized Office** Axis Bank Ltd.

In the Court of Sh. Shirish Aggarwal: nistrative Civil Judge-cum-ARC (Central) Delhi-110054

N.D.O.H. 22.02.2021 SC-23/2021 Mr. Mohd. Suhalin Vs. The State

Mr. Mohd. Suhalin (also spelled as "Swalheen" or "Sualiheen") S/o Late Sabir Ali. R/o House No. 6645, Ahata Kidara, Bara Hindu Rao Delhi-110006

FOR SUCCESSION CERTIFICATE UNDER

INDIANSUCCESSION ACT, 1925

All Concerned

Whereas in the above noted petition the applicant/petitioner has applied for Succession. Certificate to the Hon'ble Court Under Section 372 of the Indian Succession Act, 1925 in espect of the debt and securities amount of Rs xxx. As per record to be standing in the name of Late Mr. Syed (Also spelled as "Saved") Mohd. Saim deceased.

Whereas the 22.02.2021 at 10'o clock in the forenoon has been fixed for hearing or the application notice is hereby given to this incerned.

Given under my hand and the seal of the ourt on this 10.02.2021

(Seal)

31.12.2020 30.09.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.03.2020

-10.64

22.79

-1.6

34.13

300.89 452.14

-0.05

-4 84

-4.81

-4.81

5.71

300.89

392.44

-0.16

-0.16

(Shirish Aggarwal) ACJ/ARC (Central), Delhi

Nine Months Ended Year Ende

-16 15

92.72

78.26

13.02

392,44

2.6

For Jindal Leasefin Limited

(SURENDER KUMAR JINDAL

-19.92

114.43

130.34

38.59

300.89

418.01

4.33

4.33

PUBLIC NOTICE

TAKE NOTICE THAT at behest of our client, we are investigating title of Mr. Rahul Kumar ("Borrower") for Property No. RZ-5/3-C, area measuring 100 sq. yrds., out of Khasra No. 493/2872/488, situated at Tughalkabad Extn., New Delhi ("Said Property") who intends to buy the said property by availing a loan from our Client i.e. Capital India Home Loans Limited by creating a mortgage against said property, have been applied to make the same known in writing to the undersigned within a period of 7 (seven) days from the date of publication of this nortice of his/her/their share or claim, farn, with all supporting documents, failing which, it will be assumed that there are no claims or issues in respect of Said Property and the transaction, if any shall be completed without reference to the claims; if any, Kumar & Associates (Advocates & Consultants). Kumar & Associates (Advocates & Consultant 23, Ilnd Floor, Shivaji Marg, Najafgarh Road, N. Delhi-15 Ph: 011-41112527-28 kumarassociates.advocate@gmail.com

LLOYD ROCKFIBRES LIMITED

Regd. Office: Plot No. 2, Punjsons Premises, Kalkaji Industrial Area, New Delhi –110019 Tel; 011-26462157, E-Mail:punjgpl3@gmail.com, CIN: U20293DL1989PLC218564 NOTICE OF THE 31st ANNUAL GENERAL MEETING

AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 31stAnnual General Meeting of the members of Lloyd Rockfibres Limited will be held on Monday, 08th day of March, 2021 at 03:00 PM at the registered office of the Company situated at Plot No.2, Punjsons Premises, Kalkaji Industrial Area, New Delhi-110019, to transact the following businesses as set out in the

Notice of the AGM. Electronic copies of the Notice of the 31st AGM and Annual Report for the year 2019-2020 have been sent to all the shareholders whose emails IDs are registered with the Company's Registrar & Share Transfer Agent, Beetal Financial & Computer Service Pvt Limited unless the members have registered their request for a hard copy of the same and

Lamineutiness are inferious have registered and requestrior and copy of the same and to other members in Physical copies at their registered address in the permitted mode. As per the section 108 of the companies Act, 2013 and the Rules made there under, the company is pleased to provide its Shareholders the facility to cast their vote by electronic means on all the resolutions set forth in the Notice of 31st. AGM. The Company has actually all the programment with Control Describes. entered into an arrangement with Central Depository Services Limited ('CDSL') for facilitating remote e-voting services. The details pursuant to the provision of the companies Act, 2013 and the Rules are given hereunder:

1) Date of completion of sending of Notices: 10th February, 2021.

- (2) Date and time of commencement of Voting through electronic means: 05th March 2021 at 09.00 A.M
- (3) Date and time of end of Voting through electronic means: 07th March, 2021 at 5.00 P.M. (4) Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 P.M on, 07th
- March, 2021 (5) Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is 01st March
- (6) Members may participate in the General Meeting even after exercising his/her righ
- to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

 (7) Persons whose name is recorded in the register of members or in the register of
- beneficial owners maintained by the depository as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility to remote e-voting as well as voting in the general
- (8) The facility for voting through Ballot papers shall be made available at the time o AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballo papers.
- (9) Any person who acquire shares of the company and become member of the company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 05th February, 2021 may obtain the login id and password by sending a request a www.evotingindia.com.in or Issuer/RTA.
- 10) For electronic voting instruction shareholders may go through the instruction in the Notice of 31st AGM and in case of any queries / grievances connected with electronic voting, Shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and E-Voting User Manual for shareholders available at the download section of www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

By Order of the Board of Directors For Lloyd Rockfibres Limited GuaravPuni

(Managing Director) DIN No. 00822420 10, Prithvi Raj Road, Delhi-110011

COSCO (INDIA) LIMITED

CIN: L25199DL1980PLC010173

Regd. Office: 2/8, Roop Nagar, Delhi-110 007 Website: www.cosco.in Email: mail@cosco.in Tel.: 91-11-23843000 Fax: 91-11-23846000

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER

AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2020

(₹ in lacs

SI.	Particulars		Quarter Ended		Nine Mont	Year Ended	
No.		31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operations	3,985.87	3,340.45	3,114.40	10,049.95	10,100.52	13,435.82
2	Net Profit for the period before Tax	177.92	94.39	63.37	330.28	217.55	221.78
3	Net Profit for the period after tax	149.90	64.16	57.79	251.08	161.14	180.72
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive	149.90	64.16	57.79	251.08	161.14	179.81
	Income (after tax)]						
5	Equity Share Capital	416.10	416.10	416.10	416.10	416.10	416.10
6	Other Equity		-	-	-	-	3,504.85
7	Earnings Per Share (of ₹10 each)						
(a)	Basic (₹)	3.60	1.54	1.39	6.03	3.87	4.34
(b)	Diluted (₹)	3.60	1.54	1.39	6.03	3.87	4.34

Notes: -

1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange Websites(www.bseindia.com/corporates) and on the Company's website www.cosco.in.

2 The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their

By Order of the Board for Cosco (India) Limited

Devinder Kumar Jain Managing Director and CEO DIN: 00191539

Date : 12.02.2021

Place: Delhi

respective meeting held on February 12, 2021



www.bseindia.com) and Company's website www.superiorfinlease.com.

in respect of the Said Property are/is hereby requested to make the same known in writing to the undersigned within a period of 07 (seven) days from the date of publication of this notice of his/her/their share or claim, fany, with all supporting documents, failing which, it will be assumed that there are no claims or issues in respect of Said Property and the transaction, if any shall be completed without reference to the claims, if any.

Kumar & Associates (Advocates & Consultants) 200, lind Floro, 33 shivaji Marq, Molt Nagar, No Bihl:15 Ph: 011-411/2527-28 kumarassociates.advocate@gmail.com

PUBLIC NOTICE

This notice is to notify the information to the general public that Seema Sharma w/o M litendra Sharma has approached my clien India Shelter Finance Corporation Ltd. having its office at BP - 49, 1st Floor Neelam Bata Road NIT Faridabad 12100 for a housing loan. Seema Sharma is the owner of Plot area 34 sq. yrds. part of Khewat/Khata no. 1115, 1117, Khasra Mustil No. 7/14, 15, waka Mouja Gaunch Parvatiya Colony, Ballabgarh, Distt. Faridabad, vide sale deed dated 11.11.2020. Mrs Seema Sharma has los one prior Original registered Sale Deed dated 19.05.2017 executed by Mohd Sultan in favour of Sadhna Devi, in respec of above mentioned property (Doc. No.469 SR-Gauchhi). This original sale deed has peen lost and is not traceable to Mrs Seema Sharma. If anybody receive the same should return the sale deed to the below mentioned address. Further, any Person having any type of claim/right/ title / interest over the said property may inform in writing at the address mentioned below, about hi objections, within 07 days from today failing which it shall be presumed that the said property is free from all type of Encumbrances, lien etc.

Any use of the above-mentioned docume will be considered illegal Prasoon Lata, Advocate SG Associates Basement C 78 Sector 2 Noida 0120-4554882, 7011172764



MODI RUBBER LIMITED

Place: New Delh

Date: 12.02.2021

CIN: L25199UP1971PLC003392, Registered Office: Modinagar - 201204 Dist. Ghaziabad (U.P.), Corporate Office: 4-70, DDA Shopping Centre, New Friends Colony, New Delhi 110025 Website: www.modirubberlimited.com Email: investors@modigroup.net Phone: +91-11-2684 8416

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2020

(Amount in L											Amount in Lacs)		
				QUARTE	R ENDED			NINE MONTHS ENDED				YEAR ENDED	
SI.	Posticulous	STANDALONE				CONSOLIDATED)	STAND	ALONE	CONSOLIDATED		STANDALONE CONSOLIDATED	
No.	Particulars	Dec 31, 2020	Dec 31,2019	Sep 30, 2020	Dec 31, 2020	Dec 31,2019	Sep 30, 2020	Dec 31, 2020	Dec 31,2019	Dec 31, 2020	Dec 31,2019	Mar 31, 2020	Mar 31, 2020
		Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited	Audited
1	Total Income from operations (Net)	50.86	125.36	46.87	38.86	125.36	46.87	206.88	349.34	188.88	349.34	513.35	489.35
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	(353.80)	(408.89)	991.11	379.46	(120.96)	193.06	457.25	698.67	(94.62)	456.46	849.42	69.43
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	(353.80)	(408.89)	991.11	379.46	(120.96)	(67.14)	457.25	698.67	(354.82)	456.46	849.42	69.43
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	(352.23)	(408.89)	991.11	381.03	(120.15)	(67.14)	458.82	698.67	(353.25)	457.27	564.55	(233.20)
5	Total Comprehensive Income for the period (after tax)	66.92	(554.85)	1,447.11	1,249.54	(369.67)	842.88	1,520.23	613.75	1,776.59	374.38	328.92	(634.79)
6	Equity Share Capital (Face value of share is Rs. 10/- each)	2,504.05	2,504.05	2,504.05	2,504.05	2,504.05	2,504.05	2,504.05	2,504.05	2,504.05	2,504.05	2,504.05	2,504.05
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
8	Earnings per share (EPS) (of Rs. 10/- each) (Not Annualised)												
	(a) Basic and Diluted EPS (before exceptional Items) (in Rs.)	(1.41)	(1.63)	3.96	1.52	(0.48)	0.77	1.83	2.79	(0.37)	1.83	2.25	(0.93)
	(b) Basic and Diluted EPS (after exceptional Items) (in Rs.)	(1.41)	(1.63)	3.96	1.52	(0.48)	(0.27)	1.83	2.79	(1.41)	1.83	2.25	(0.93)

Place: New Delhi

Date: 12th February, 2021

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Annual Financial Results are available on the stock exchange website, www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company website www.modirubberlimited.com
- 2 The above results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors of the Company at their respective meeting held on February 12th, 2021. The Statutory Auditors of the Company have carried out a limited review of the aforesaid results.

By order of the Board

(Alok Kumar Modi) Managing Director